



झारखण्ड गजट

साधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

7 भाद्र, 1940 (श०)

संख्या - 24 राँची, बुधवार,

29 अगस्त, 2018 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ

पृष्ठ

भाग 1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ।
भाग 1-क—स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के आदेश।
भाग 1-ख—मैट्रिकुलेसन, आई.ए., आई.एस.सी., बी.ए., बी.एस.सी., एम.ए., एम.ए.सी., लॉ भाग 1 और 2, एम.बी.बी.एस., बी.सी.ई., डिप०-इन-एड., मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम छात्रवृत्ति प्रदान आदि।
भाग 1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।
भाग-2—झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा
भाग-2—झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ एवं नियम आदि।
भाग 3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 'भारत गजट' और राज्य गजटों से उद्धरण।

429- 444 **भाग-4**—झारखण्ड अधिनियम

भाग-5—झारखण्ड विधान-सभा में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।

भाग-7—संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है।

भाग-8—भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।

भाग-9— विज्ञापन

भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं

भाग-9-ख—निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ इत्यादि।

पूरक--

...

...

पूरक "अ"

...

भाग 1**नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ**

 कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना
 3 जुलाई, 2018

संख्या-4/नि०स०-12-292/2014-913 (HRMS)-- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारी श्री राम सुमन प्रसाद (चतुर्थ 'सीमित' बैच, गृह जिला- जहानाबाद) की सेवा उनके नाम के सामने स्तम्भ 6 में अंकित तिथि से निम्नरूपेण सम्पुष्ट की जाती है:-

Sl. No.	Employee Name G.P.F. No.	Current Department	<u>Current Office</u> Current Designation	Joining Date in Service	Date of Service Confirmation
1	2	3	4	5	6
1	RAM SUMAN PRASAD- (JHK/JAS/188)	> DC OFFICE CHATRA	<u>HUNTERGANJ</u> <u>(SHALIGRAM</u> <u>NARAYANPUR)</u> <u>CIRCLE ,CHATRA</u> Circle Officer	11/09/2013	13/06/2017

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

एच०के० सुधाँशु,
 सरकार के अवर सचिव
 जीपीएफ संख्या:PTS/FD/1139

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

24 मई, 2018

संख्या-4/नि० स०-12-204/2014-341 (HRMS)-- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारी श्री परमेश्वर कुशवाहा (द्वितीय 'सीमित' बैच, गृह जिला गिरिडीह) की सेवा उनके नाम के सामने स्तम्भ 6 में अंकित तिथि से निम्नरूपेण सम्पुष्ट की जाती है:-

Sl. No.	Employee Name G.P.F. No.	Current Department	<u>Current Office</u> Current Designation	Joining Date in Service	Date of Service Confirmation
1	2	3	4	5	6
1	PERMESHVAR KUSHWAHA- (jhk/jas/214)	> DC OFFICE PALAMAU	<u>HUSSAINABAD</u> <u>SUB DIVISION</u> <u>.PALAMU</u> Executive Magistrate	19/08/2013	27/05/2017

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

एच०के० सुधाँशु,

सरकार के अवर सचिव

जीपीएफ संख्या:PTS/FD/1139

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

अधिसूचना

23 जुलाई, 2018

संख्या-9/आरोप -15/2016-3096/रा०,-- श्री सत्येन्द्र सिंह, तत्कालीन अंचल निरीक्षक, चतरा सम्प्रति सेवानिवृत्त सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के विरुद्ध नामांतरण वाद सं०-1698, दिनांक 11 फरवरी, 2010 के द्वारा ग्राम-कोलाडीह के कुल रकबा-147.05 एकड़ भूमि का नीलांचल आयरन एण्ड पावर लि० के पक्ष में अवैध नामांतरण/हस्तांतरण हेतु अनुशंसा करने संबंधी आरोपों के लिए उपायुक्त, चतरा के पत्रांक-111, दिनांक 21 फरवरी, 2017 द्वारा आरोप प्रपत्र 'क' प्राप्त हुआ।

2. प्रपत्र 'क' में गठित आरोपों के संबंध में श्री सिंह से प्राप्त स्पष्टीकरण दिनांक 27 जून, 2017 एवं उपलब्ध अभिलेखों के सम्यक समीक्षोपरांत श्री सिंह के विरुद्ध झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम - 43 (ख) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3. तदनुसार एतद् द्वारा श्री सिंह को आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना के प्राप्त होने की तिथि से 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अपना लिखित बचाव-बयान प्रस्तुत करें।

4. श्री सिंह द्वारा लिखित बचाव-बयान में जिन आरोपों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन आरोपों की जाँच हेतु श्री विनोद चंद्र झा, सेवानिवृत्त भा.प्र.से. (विभागीय जाँच पदाधिकारी), झारखण्ड नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी. गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

5. श्री सिंह के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु अंचल अधिकारी, चतरा को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित किया जाता है।

6. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव पर सरकार का आदेश प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अवध नारायण प्रसाद,
सरकार के उप सचिव।

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

अधिसूचना

24 जुलाई, 2018

संख्या-09/नि० गो० -51/2016-3132(09)/रा.,-- श्री उज्जवल मिंज, तत्कालीन जिला अवर निबंधक, सरायकेला-खरसावां को जिला अवर निबंधक, चास, बोकारो के पद पर पदस्थापन के दौरान बोकारो जिलान्तर्गत चास अंचल के मौजा तेतुलिया के गैर मजरूआ खाता संख्या-59, प्लॉट नं०-63, 144, 311 एवं 184 कुल रकबा-4.11 एकड़ भूमि का निबंधन करने के प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के कारण झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9 (1) (क) के तहत विभागीय अधिसूचना संख्या-5247/रा., दिनांक 30 अक्टूबर, 2017 द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए विभागीय अधिसूचना संख्या-5381/रा., दिनांक 8 नवम्बर, 2017 द्वारा उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई ।

उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु विभागीय जाँच पदाधिकारी श्री विनोद चन्द्र झा, भा.प्र.से. (से.नि.) को संचालन पदाधिकारी एवं जिला अवर निबंधक, चास, बोकारो को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया ।

विभागीय जाँच पदाधिकारी-सह-संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-58, दिनांक 7 मार्च, 2018 द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं उपलब्ध अभिलेखों के सम्यक समीक्षोपरान्त सरकार के निर्णयानुसार श्री मिंज को चेतावनी संसूचित करते हुए अधिसूचना निर्गत की तिथि से निलंबन से मुक्त किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अवध नारायण प्रसाद,
सरकार के उप सचिव।

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

अधिसूचना

27 जुलाई, 2018

संख्या-09/आरोप-हजारीबाग-04/2015-3179 (09)/रा.,-- श्री राजेन्द्र सिंह, तत्कालीन अंचल निरीक्षक, सदर, हजारीबाग सम्प्रति सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, हजारीबाग द्वारा राजस्व कागजातों का सत्यापन किये बिना सत्यता को छुपाते हुए जानबूझकर खासमहाल की जमीन का जमाबंदी कायम करने हेतु अनुशंसा करने संबंधी आरोपों की जाँच हेतु विभागीय आदेश सं०-3404/रा., दिनांक 17 जुलाई, 2015 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित करते हुए अपर समाहर्ता, हजारीबाग को संचालन पदाधिकारी तथा अंचल अधिकारी, सदर, हजारीबाग को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित किया गया ।

2. उपायुक्त, हजारीबाग के पत्रांक-110, दिनांक 10 जनवरी, 2018 के माध्यम से प्राप्त अपर समाहर्ता, हजारीबाग-सह-संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन के सम्यक समीक्षोपरांत दण्ड के बिन्दु पर श्री सिंह से विभागीय पत्रांक-1353/रा., दिनांक 27 मार्च, 2018 द्वारा द्वितीय कारण-पृच्छा की गयी ।

3. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन, श्री सिंह द्वारा समर्पित द्वितीय कारण-पृच्छा के जबाब एवं उपलब्ध अभिलेखों के सम्यक समीक्षोपरांत सरकार के निर्णयानुसार श्री सिंह के विरुद्ध निम्नांकित दण्ड अधिरोपित किया जाता है :-

- (i) निंदन,
- (ii) एक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अवध नारायण प्रसाद,
सरकार के उप सचिव।

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

अधिसूचना

30 जुलाई, 2018

संख्या-02/नि.स्था.-32/2018-3189 (02)/रा.,-- योजना-सह-वित्त विभाग के संकल्प सं०-551/वि., दिनांक 1 मार्च, 2007 एवं संकल्प सं०-1997, दिनांक 1 जुलाई, 2010 के आलोक में श्रीमती ओलिभा एक्का, अवर निबंधक, गोला (रामगढ़) को दिनांक 1 अगस्त, 2018 से 27 जनवरी, 2019 तक कुल 180 (एक सौ अस्सी) दिनों के मातृत्व अवकाश का उपभोग करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अवध नारायण प्रसाद,
सरकार के उप सचिव।

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

अधिसूचना

7 अगस्त, 2018

संख्या-09/ आरोप-दुमका-18/2015-3331-- श्री विनोद बिहारी वर्मा, तत्कालीन सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी (राजस्व) मुख्यालय, संथाल परगना बंदोबस्त कार्यालय, दुमका संप्रति सेवानिवृत्त को दिनांक 8 अक्टूबर, 2012 को 10.30 बजे पूर्वाह्न में उनके सरकारी आवास से निगरानी टीम द्वारा गिरफ्तार किये जाने के कारण विभागीय अधिसूचना सं०-4100/रा., दिनांक 2 नवम्बर, 2012 द्वारा उनकी गिरफ्तारी की तिथि दिनांक 8 अक्टूबर, 2012 से अगले आदेश तक के लिए निलंबित किया गया है।

2. श्री वर्मा निलंबन अवधि में ही कारावास में रहते हुए दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 को वार्डक्य सेवानिवृत्त हुए हैं एवं दिनांक 8 फरवरी, 2013 को कारावास से मुक्त हुए।

3. श्री वर्मा के निलंबनावधि में ही कारावास में रहते हुए वार्डक्य सेवानिवृत्त होने के कारण इन्हें निलंबनमुक्त किये जाने की प्रभावी तिथि के बिंदु पर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग का परामर्श प्राप्त किया गया जो निम्नवत् है :-

“अंकणीय है कि झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-99 के अनुसार सरकारी सेवक को किसी दांडिक अपराध के लिए पुलिस हिरासत की अवधि तक के लिए निलंबित रखा जाना है। यह सही है कि श्री वर्मा दिनांक 8 फरवरी, 2013 को हिरासत से मुक्त हुए हैं, लेकिन चूँकि उनकी वार्डक्य सेवानिवृत्त की तिथि दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 है एवं उक्त तिथि के पश्चात वे सरकारी सेवक नहीं रह जाते हैं, इसलिए इनपर पूर्ण हिरासत की अवधि को निलंबनावधि के रूप में माने जाने का प्रावधान प्रभावी नहीं हो सकता है, अपितु उन्हें सेवानिवृत्त की तिथि से ही निलंबनमुक्त माना जाना युक्तिसंगत होगा।”

4. अतः कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के उपरोक्त परामर्श के आलोक में श्री विनोद बिहारी वर्मा, तत्कालीन सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी (राजस्व), मुख्यालय, सहायक बंदोबस्त कार्यालय, दुमका सम्प्रति सेवानिवृत्त को उनकी वार्डक्य सेवानिवृत्ति की तिथि दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 से निलंबनमुक्त माना जाता है।

5. श्री वर्मा के निलंबन अवधि के संबंध में निर्णय इनके विरुद्ध दर्ज निगरानी थाना काण्ड सं०-23/12, दिनांक 6 अक्टूबर, 2012 में पारित अंतिम आदेश के आलोक में लिया जायेगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अवध नारायण प्रसाद,
सरकार के उप सचिव।

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

अधिसूचना

16 अगस्त, 2018

संख्या-09/आरोप-राँची-92/2017-3464 (09),-- श्री अखिलेश्वर शरण जमुआर, तत्कालीन अंचल निरीक्षक, नामकुम सम्प्रति सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, राँची द्वारा मौजा-टुम्बागुट से संबंधित रैयतों का प्रतिरक्षा विभाग के लिए अर्जित भूमि के क्रेता एवं विक्रेता के बिना दखल-कब्जा वाली भूमि के नामांतरण हेतु गलत रूप से उनका दखल कब्जा बताकर नामांतरण करने की अनुशंसा करने संबंधी प्रपत्र 'क' में गठित आरोपों की जाँच हेतु श्री विनोद चंद्र झा, से.नि.भा.प्र.से., विभागीय जाँच पदाधिकारी को संचालन पदाधिकारी तथा अंचल अधिकारी, नामकोम को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित करते हुए विभागीय अधिसूचना सं०-356/रा., दिनांक 24 जनवरी, 2018 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी ।

2. श्री विनोद चंद्र झा, संचालन पदाधिकारी-सह-वित्त विभागीय जाँच पदाधिकारी के पत्रांक-105, दिनांक 8 मई, 2018 द्वारा श्री जमुआर के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया ।

3. संचालन पदाधिकारी-सह-विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं उपलब्ध अभिलेखों के सम्यक समीक्षोपरांत सरकार के निर्णयानुसार श्री जमुआर को चेतावनी संसूचित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अवध नारायण प्रसाद,
सरकार के उप सचिव ।

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

अधिसूचना

24 अगस्त, 2018

संख्या-2/राज. स्था. शक्ति प्रदत्त(खंड)-03/2017-3599(02)/रा.,-- उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के पत्रांक-404, दिनांक 10 अगस्त, 2018 के आलोक में श्री दिनेश कुमार रंजन (झा.प्र.से.), जिला परिवहन पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को उनके कार्यों के अलावे, जिला-भू-अर्जन पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के रूप में कार्य करने हेतु भू-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ("The Right to fair compensation and transparency in land Acquisition Rehabilitation and Resettlement Act-2013") की धारा 3(g) के तहत समाहर्ता की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है ।

शक्ति प्रदत्त पदाधिकारी जिला के समाहर्ता तथा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के निदेशों के आलोक में अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे ।

उनके वर्तमान पदस्थापन अवधि तक के लिए शक्ति प्रदत्त करते हैं ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

राम कुमार सिन्हा,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

अधिसूचना

24 अगस्त, 2018

संख्या-8बी./भू.अ.नि.(SLAO नामित) धनबाद-204/2017-3600/रा.,-- जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-3243, दिनांक 27 जुलाई, 2018 के आलोक में स्वर्णरेखा परियोजना अंतर्गत भू-अर्जन की प्रक्रिया में तीव्रता लाने हेतु निम्न पदाधिकारियों को अपने कार्यों के अतिरिक्त अपने परिक्षेत्र अंतर्गत विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी की शक्ति प्रदत्त की जाती है :-

1. श्री द्वारिका बैठा, अंचल अधिकारी, पोटका, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर
2. श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह, अंचल अधिकारी, घाटशिला, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर
3. श्री महेश्वर महतो, अंचल अधिकारी, जुगसलाई-सह-गोलमुरी (जमशेदपुर), पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर तथा
4. श्रीमती निवेदिता नियति, अंचल अधिकारी, राजनगर, सरायकेला-खरसावाँ।

शक्ति प्रदत्त पदाधिकारी जिला के समाहर्ता तथा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के निदेशों के आलोक में अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे ।

उनके वर्तमान पदस्थापन अवधि तक के लिए शक्ति प्रदत्त करते हैं ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

राम कुमार सिन्हा,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

अधिसूचना

27 अगस्त, 2018

संख्या-2/रा०स्था०-19/10-3602/रा,-- उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ के पत्रांक-468, दिनांक 28 जुलाई 2018 के आलोक में श्री संदीप दुबे, अनुमण्डल पदाधिकारी, सरायकेला को अपने कार्यों के अतिरिक्त राजस्व संबंधी कार्यों के निष्पादन हेतु भूमि सुधार उप समाहर्ता, सरायकेला की शक्ति प्रदत्त की जाती है।

श्री दुबे के उक्त पद से स्थानांतरण अथवा भूमि सुधार उप समाहर्ता, सरायकेला के पद पर नियमित पदाधिकारी के पदस्थापन एवं प्रभार ग्रहण करने, जो भी पहले हो, के उपरांत यह अधिसूचना स्वतः विलोपित समझी जायेगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

राम कुमार सिन्हा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

18 अक्टूबर, 2017

संख्या-4/नि०स०-12-254/2014-496 (HRMS)-- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारी श्री उदय कुमार सिन्हा, (चतुर्थ 'सीमित' बैच, गृह जिला-गया, बिहार) की सेवा उनके नाम के सामने स्तम्भ 6 में अंकित तिथि से निम्नरूपेण सम्पुष्ट की जाती है:-

Sl. No.	Employee Name GPF No.	Current Department	<u>Current Office</u> Current Designation	Joining Date in Service	Date of Service Confirmation
1	UDAY KUMAR SINHA- (JHK/JAS/311)	DC Office GUMLA	<u>BISHUNPUR BLOCK ,GUMLA</u> Block Development Officer	19/08/2013	09/09/2016

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

एच०के० सुधाँशु,

सरकार के अवर सचिव

जीपीएफ संख्या:PTS/FD/1139

झारखण्ड विधान सभा

अधिसूचना

27 अगस्त, 2018

संख्या-01 स्था०/2018- 2805 /वि०स०-- सभा सचिवालय के अधिसूचना संख्या- 2704, दिनांक 14 अगस्त, 2018 के आलोक में श्री महेन्द्र प्रसाद के द्वारा दिनांक 26 अगस्त, 2018 के पूर्वाहन से सचिव, झारखण्ड विधान-सभा, राँची के पद पर दिए गए योगदान को स्वीकृत किया जाता है ।

माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से,

सिल्वेस्टर टोप्पो,

संयुक्त सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची ।

प्रकाशनार्थ सूचना

में SUJAG पिता ROBINSON TIWARY शपथ पत्र सं० 1101, दिनांक 30 जुलाई, 2018 के अनुसार SUJAG TIWARI के नाम से जाना जाऊँगा।
SUJAG एवं SUJAG TIWARI दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

PERMANENT RESIDENT-- Qr. No. CD/472, SECTOR III, HEC COLONY,
P.O+ P.S.- DHURWA,
DIST— RANCHI,
STATE—JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

में SHREE KANTH MUDI पिता LATE ANIL CHANDRA MODI शपथ पत्र सं० 564, दिनांक 23 जुलाई, 2018 के अनुसार SHRIKANTH MODI के नाम से जाना जाऊँगा।

SHREE KANTH MUDI एवं SHRIKANTH MODI दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT-- SECTOR -12/A, Qr. No. 3374,
P.O.+ P.S.- SECTOR -12,
DIST.— BOKARO,
STATE—JHARKHAND

PERMANENT RESIDENT-- VILLAGE & P.O.- BASBUTIA,
P.S.- PALOJORI,
DIST.— DEOGHAR,
STATE—JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

में KUMARI BINA KISKU पिता RAVINDRA PRAKASH KISKU शपथ पत्र सं० 37, दिनांक 21 जून, 2018 के अनुसार BINA KISKU के नाम से जानी जाऊँगी ।
KUMARI BINA KISKU एवं BINA KISKU दोनों एक ही महिला का नाम है ।

PERMANENT RESIDENT-- CHAMPANAGAR,
P.O.- KUMHARLALO,
P.S.-PIRTAND,
DIST— GIRIDIH,
STATE—JHARKHAND

में ASHOK पिता ARJUN SAW शपथ पत्र सं० 994, दिनांक 29 सितम्बर, 2016 के अनुसार ASHOK PRADHAN के नाम से जाना जाऊँगा ।
ASHOK एवं ASHOK PRADHAN दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

PERMANENT RESIDENT-- JARANGDIH, Qr. No.- DS.MQ-18,
P.O.- JARANGDIH,
P.S.- BOKARO THERMAL
DIST.- BOKARO,
PIN.- 829113,
STATE—JHARKHAND
